

## प्रेस नोट दिनांक-06.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुबाल त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सियाराम पुत्र बोधन निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय
2. आरक्षी अंकित सचान
3. आरक्षी शिवम मिश्रा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 639/14 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अजीत पुत्र कमलेश निवासी तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अजय तिवारी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा हेल्प डेस्क पर ड्यूटी में लगी सभी महिला आरक्षियों को फर्स्ट एड बॉक्स व पट्टी बांधने के लिये सीएससी अस्पताल मऊ में डाक्टरों से ट्रेनिंग दिलवायी गयी जिससे थाने पर आने वाली महिला पीडिताओं की सहायता की जा सके। इस

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 06/03/2021 को प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा तथा एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा पालेश्वरनाथ एण्टर कालेज कस्बा पहाड़ी में छात्राओं के साथ गोष्ठी की गयी, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम डोडामाफी में भ्रमण कर महिलाओं को तथा कम्पोजिट विद्यालय डोडा माफी में छात्राओं को, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा ग्राम खण्डेहा में, एंटी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कस्तूरबा बाई विद्यालय शिवरामपुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा आदर्श इंटर कॉलेज, आर्य नगर, रेलवे स्टेशन के पास श्रमिक महिलाओं को, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा सीतापुर चौकी क्षेत्र में, एंटी रोमियो टीम राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में महिला वॉलन्टिर्स के साथ गोष्ठी की गयी एवं कस्बा भौरी एवं बोड़ी पोखरी में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।